

ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED

REGD. OFFICE & WORKS: BEHRAMPUR ROAD KHANDSA VILLAGE, GURUGRAM-122001 (HR.) TEL.: 0124-4809756, 4809755

email: atml_delhi@yahoo.com Registration No.: L17226HR1984PLC033384

Date: May 31, 2024

To BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001

Subject: Intimation of publication of post issue advertisement with respect to the Rights Issue of Fully paid up Equity Shares of Ashnoor Textile Mills Limited ("the Company") pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of the provisions of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject and in reference to our earlier intimations regarding Rights Issue of equity shares of Ashnoor Textile Mills Limited ("the Company"), enclosed herewith are the copies of Post Issue advertisement made by the Company today i.e. Friday, May 31, 2024, in the following newspapers:

1. Financial Express – English (All editions):

TEXTI

2. Jansatta - Hindi (All editions); and

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

For Ashnoor Textile Mills Limited

Suneel Gupta

Managing Director

Enclosure: a/a

FINANCIAL EXPRESS



V2 Retail Limited

Regd. Office: Khasra No. 928, Extended Lal Dora Abadi, Village Kapashera, Tehsil Vasant Vihar, New Delhi South West Delhi - 110037 CIN- L74999DL2001PLC147724, Ph: 011-41771850, Email: cs@v2kart.com, Website: www.v2retail.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

										(Rs. In lakh:
	,,,			STANDALON	E		CONSOLIDATED				
		3	Quarter Ended Year Ended			Ended	Quarter Ended			Year Ended	
	Particulars	31-Mar-24 (Audited)	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24 (Audited)	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23
	1/1		(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	29,682.44	37,656.66	19,547.62	1,17,159.93	84,502.86	29,698.01	37,678.77	19,555.94	1,17,221.55	84,555.20
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax exceptional and/or extraordinary items)	33.10	3,213.18	(1,104.92)	3,058.45	(1,883.75)	4.86	3,140.67	(1,032.38)	3,137.28	(1,695.19)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	33.10	3,213.18	(1,104.92)	3,058.45	(1,883.75)	4.86	3,140.67	(1,032.38)	3,137.28	(1,695.19)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	386.88	2,409.10	(817.29)	2,728.61	(,1448.82)	359.94	2,356.90	(770.60)	2,781.07	(1,281.67)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after Tax)]	392.07	2,406.10	(816.34)	2,706.03	(1,464.80)	360.62	2,353.90	(771.79)	2,753.99	(1,299.79)
6	Equity Share Capital	3,458.93	3,458.93	3,438.93	3,458.93	3,438.93	3,458.93	3,458.93	3,438.93	3,458.93	3,438.93
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	33	19	*	23,994.07	21,283.14	9.	18	-	24,012.43	21,253.50
8	Earnings /(Loss) per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) not annualized -Basic	1.12	6.97	(2.38)	7.89	(4.21)	1.04	6.82	(2.24)	8.04	(3.73)
9	Earnings /(Loss) per share (of Rs.10/- each) (for continuing and	9/02			222	2000	12723	2.22		999	

Notes:

Place: New Delhi

Date: 30th May, 2024

The audited financial results (consolidated and standalone) have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 5th July, 2016. The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 30th May, 2024.

(2.38)

7.89

(4.21)

1.04

6.82

6.97

The above is an extract of detailed format of audited financial results (consolidated and standardone) for the guarter and year ended 31st March, 2024filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of audited financial results (consolidated and standalone) is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on the Company's Website i.e. (www.v2retail.com).

For and on behalf of the Board of Directors

(2.24)

Ram Chandra Agarwal Managing Director DIN: 00491885

(3.73)

EMAZING DEALS LLP

Registered Office Address: C-GARRAGE FLR-GRD C WING SIMLA HOUSĔ OFF L D RUPAR, EL MARG, PARSI PANCHAYAT SIMLA NAGAR, CUMBALLA HILL, MUMBAI - 400036. Mobile No.: +912240024674 LLPIN: AAE-5942 Email ID: contact@emazing.in

Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 that Emazing Deals LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a Public Company limited by shares

2. The principal objects of the Company are as follows:

To carry on in India or elsewhere the business of buying, selling, reselling, importing, exporting, transporting, storing, developing, promoting, marketing or supplying, trading, dealing in any manner whatsoever in shawls, scarves, bed sheets carpets, all kinds of furnishing fabrics, all kind ready-made garments, all kind of wearing apparels, jewelry, Imitation jewelry, leather bags, accessories, handicrafts, wall hangings, Glass and artifacts, cutlery, showpieces, gifting items computer accessories and peripherals, Furniture Household items, All kinds of fragrances such perfumes & attar and of all articles similar to the foregoing or any of them or connected therewith, all kinds of processed foods, health foods, salts spices, soups, sauces, salads and protein products, food products, agro foods, ready-to-eat savouries, packed foods, substances added to food, dairy products and analogues, poultry products, sea foods, milk foods, heath and diet drinks, extruded foods, frozen foods, dehydrated foods, precooked foods, canned foods, preserved foods, bakery products and confectionary items, fun foods, breakfast foods, dietic products, baby foods, instant foods, cereals and cereal products table delicacies and fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, nuts and seeds and all other items whether natural, artificial or synthetic and food stuffs and products of every description for human consumption, and all type goods not mentioned hereinabove on retail as well as on wholesale basis online or otherwise in india or elsewhere. To carry on the business as exhibitors of various goods, services and merchandise and to undertake the necessary activities to promote sale of goods, services and merchandise manufacture/dealt with/provided by the firm, or any other business or businesses as the partner hereto mutually agree upon from time to time and other allied activities and/or such other business or businesses as the partners hereto mutually agree upon from time to time.

3.A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed Company may be inspected at the office at Plot No 7B Palghar (East), Village Kokner Mumbai Maharashtra 401404 India.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their Objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within Twenty-One days from the date of publication of this notice, with a copy to the Company at its Registered Office.

Dated this May 31, 2024

Name(s) of Applicant:

1. TAWHEED ABDUL SOFIA 2. MARIAM TAWHEED SOFIA 3. MOHAMMED ALI TAWHEED SOFIA 4. ASIF HASAN SHAIKH 5. MOHAMMAD SHAFI WANI 6. MOHD SUHEL ANSARI 7. ZARQA AYESHA SHAIKI

April 22, 2024, the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange"), and the Securities and the Exchange Board of India ("SEBI").



discontinued operations) not annualized -Diluted

ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED

Our Company was originally incorporated as Gupta Carpets Udyog Limited under the Companies Act, 1956; with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, National Capital and Territory of Delhi and Haryana on January 21, 1984. Subsequently the name of our Company was changed from "Gupta Carpets Udyog Limited" to "GCUL Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana on July 11, 1995. Thereafter the name of our Company was subsequently changed from "GCUL Limited" to "Ashnoor Textile Mills Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, National Capital and Territory of Delhi and Haryana on April 29, 1999. For detailed information of change of Registered Office please refer to chapter "General Information" on page number 40 of the Letter of Offer.

purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated

1.12

Registered Office: Behrampur, Khandsa Village, Gurugram, Haryana-122001, India Telephone: 0124-4809755 | E-mail id: accounts@ashnoortex.com | Website: www.ashnoortex.com Contact Person: Ms. Yashima Saluja, Company Secretary & Compliance Officer Corporate Identity Number: L17226HR1984PLC033384

PROMOTERS OF OUR COMPANY:

MR. SUNEEL GUPTA, MS. SANGEETA GUPTA, MR. ABHINAV GUPTA AND MS. NOOR GUPTA FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED ONLY

ISSUE OF UP TO 31.86.462 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF 🤻 20/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 10). PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 637.29 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 4 (FOUR) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON FRIDAY, APRIL 26, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 111 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Ashnoor Textile Mills Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Tuesday, May 07, 2024 and closed on Thursday, May 16, 2024 and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Monday, May 13, 2024, Out of the total 1,537 Applications for 1,40,28,881 Rights Equity Shares, 448 Applications for 2,33,699 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid applications received were 1,089 Application for 1,35,45,182 Rights Equity Shares, which was 425.09% of the issue size. In accordance with Letter of Offer and the Basis of allotment finalized on May 27, 2024, the Registrar to the Issue and BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on May 27, 2024, allotted 31,86,462 Rights Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for allotment. 1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	No. of Rights Equity Shares Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares Allotted against Additional Rights Equity Shares Applied for (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (C=A+B)
Eligible Equity Shareholders	1,019	1,31,82,892	20,90,916	10,79,320	31,70,236
Renouncees	70	3,62,290	16,226	NIL	16,226
Total	1,089	1,35,45,182	21,07,142	10,79,320	31,86,462

2. Information regarding total Applications received:

Category	Applications Re	ceived	Rights Equity	Shares Applied f	Rights Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%
Eligible Equity Shareholders	1,467	95.45	1,34,16,591	26,83,31,820	97.37	31,70,236	6,34,04,720	99.49
Renouncees*	70	4.55	3,62,290	72,45,800	2.63	16,226	3,24,520	0.51
Total	1,537	100	1,37,78,881	27,55,77,620	100	31,86,462	6,37,29,240	100

the investors (identified on the basis on PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the Issue are considered as Renouncees.

Intimation for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on May 30, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Application were given on May 27, 2024. The listing application was filed with BSE on May 27, 2024 and subsequently the listing approval was received on May 28, 2024 from BSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat account of allottees was completed on May 30, 2024. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE with effect from June 03, 2024. The Rights Equity Shares will traded under same ISIN as Equity Shares (i.e. INE372IO1018). In accordance with SEBI Circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of ISIN pertaining to Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on May 29, 2024. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BETRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of the BSE Limited." on page 109 of the LOF.

COMPANY

LINKIntime

ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED Registered Office: Behrampur, Khandsa Village, Gurugram, Haryana-122001, India Telephone: 0124-4809755

E-mail id: accounts@ashnoortex.com Website: www.ashnoortex.com

Date: May 30, 2024

Contact Person: Ms. Yashima Saluja, Corporate Identity Number: L17226HR1984PLC033384 LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai City, Maharashtra Telephone: +91 8108114949:

REGISTRAR TO THE ISSUE

E-mail: ashnoortextile.rights2023@linkintime.co.in Investor grievance: ashnoortextile.rights2023@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in

Contact Person: Ms. Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No: INRO00004058

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE. THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Ashnoor Textile Mills Limited On behalf of the Board of Directors Ms. Yashima Saluja

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTAINTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata - 700007, West Bengal, India | Phone: +91-77199 13351 E-mail ID: cinerad@gttsolutions.in | Website: www.cineradcommunications.com CIN: L92100WB1986PLC218825

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 49,82,098 (FORTY NINE LAKHS EIGHTY TWO THOUSAND NINETY EIGHT)

FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (INDIAN RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING THE 26.00% (TWENTY SIX) PERCENT OF THE EMERGING VOTING CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED. BY PANKAJ RAMESH SAMANI ("ACQUIRER NO. 1"), KAUSHAL UTTAM SHAH ("ACQUIRER NO. 2") UG PATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER NO. 3"), GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 4"), UMA GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 5"), MANOJ MANOHAR PANVELKAR ("ACQUIRER NO. 6"), NITIN NEMINATH PATIL ("ACQUIRER NO. 7") AND BASANTA KUMAR SWAIN ("ACQUIRER NO. 8") (HEREINAFTER, COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER").

This post-offer advertisement ("Post-Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Limited, the Manager to the offer ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirers, pursuant to Regulation 18(12) and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations. This Post-Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with; (a) the Detailed Public Statement ("DPS") that was published in Financial Express (English). Jansatta (Hindi), Navshakti (Marathi) and Ek Din (Bengali) ("Newspapers") on January 30, 2024; (b) the Draft Letter of Offer ("DLOF") dated February 6, 2024 and (c) the Letter of Offer ("LOF") dated May 04, 2024.

Sr. No.	Particulars	Details
1	Name of the Target Company	Cinerad Communications Limited
2,	Name of the Acquirer	Pankaj Ramesh Samani ("Acquirer No. 1"), Kaushal Uttan Shah ("Acquirer No. 2") Ugpatwardhan Services Privat Limited ("Acquirer No. 3"), Ganesh Natarajan ("Acquirer No. 4"), Uma Ganesh Natarajan ("Acquirer No. 5"), Manoj Manoha Panvelkar ("Acquirer No. 6"), Nitin Neminath Patil ("Acquire No. 7") and Basanta Kumar Swain ("Acquirer No. 8").
3.	Name of the Manager to the offer	Vivro Financial Services Private Limited
4.	Name of the Registrar to the offer	Niche Technologies Private Limited
5.	Offer Details: a.) Date of opening of the offer b.) Date of closing of the offer	Monday, May 13, 2024 Tuesday, May 28, 2024
6	Date of Payment of Consideration	Not applicable as no equity shares were tendered.

Date of Payment of Consideration		Not applicable as no equity shares were tendered.					
etails)	s of Acquisition				2000		
Sr. No.	Particulars	(Assuming fu	e Offer Document Il acceptance in Offer)	Ac	tuals		
7.1	Offer Price	₹10/- per	Equity Share	₹10/- per	Equity Share		
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	gregate number of Equity Shares tendered 49,82,098			Nil		
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	49,8	32,098		Nil		
7.4	Size of the Offer	₹ 4,98	,20,980/-		Nil		
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements / Public Announcemen Number More of Fully Diluted Equity Share Capital		Nii Nii		Nil Nil		
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated January 22, 2024 • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	f Share n Agreement 1,35,22,186 ^(a)		1,35,22,186 ^(a) 70.57%			
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer. Number Solventry Diluted Equity Share Capital	10.040	32,098 .00%	Nil Nil			
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Statement Number of Shares acquired Price of Shares acquired Shares acquired		Nil Nil Nil		Nil Nil Nil		
7.9	Shareholding of the Acquirers before Agreements / Public Announcemen Number Shares Acquired Equity Share Capital Equity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated January 22, 2024 Number Shares Acquired Equity Share Capital Equity Shares Acquired by way of Open Offer. Number Shares Acquired Equity Share Capital Shares Acquired after Detailed Public Statement Number of Shares acquired Price of Shares acquired Shares Acquired Equity Share Capital Post offer shareholding of Acquirers. Number Shares Acquired Equity Share Capital Post offer shareholding of Acquirers. Number Shares Acquired Equity Share Capital Pre & Post offer shareholding of the Public	N. 10 March 20	,04,284 .57%	1.10000000	2,186 ^a .57%		
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer		
	Number % of Fully Diluted Equity Share Capital	28,39,729 54.61%	6,57,631 3.43%	28,39,729 54,61%	56,39,729 29.41%		

(a) Pursuant to the Promoters SPAs, 23,60,271 Equity Shares representing 12,32% of the Emerging Voting Capital was transferred from the Sellers to the Acquirers on March 07, 2024 and March 12, 2024, Further, the board of directors in their meeting held on March 13, 2024, allotted 1,11,61,915 Equity Shares representing 58.25% of the Emerging Voting Capital to the Acquirers, totaling to 1,35,22,186 Equity Shares representing 70.57% of the Emerging Voting Capital of the Target Company.

(b) Simultaneously with the preferential issue of Equity Shares to the aforesaid Acquirers, the Board of the Target Company in their meeting held on March 13, 2024 has also allotted 28,00,000 (Twenty Eight Lakhs) Equity Shares representing 14.61% (Fourteen point Sixty One) percent of the Emerging Voting Capital at a price of ₹10/- (Indian Rupees Ten) per Equity Share on preferential basis to certain Public Shareholders namely Godawari Ventures LLP (3,00,000 Equity Shares), Parekh Nishita Nikhil (2,00,000 Equity Shares), Shilpa Bhavesh Shah (2,00,000 Equity Shares), Sindola Management Services Private Limited (2,00,000 Equity Shares), Suhani Jadhav (2,00,000 Equity Shares), Abhay Bhagate (1,50,000 Equity Shares), Shrinivas Shamsundar Toshniwal (1,50,000 Equity Shares), Tejal Thakkar (1,00,000 Equity Shares), Nidhish Harish Tanna (1,00,000 Equity Shares), Amit Kirtilal Shah (1,00,000 Equity Shares), Ramesh Trikamji Shah (1,00,000 Equity Shares), Poonam Bhupalsingh Suthyan (1,00,000 Equity Shares), Yogesh Malgounda Patil (1,00,000 Equity Shares), Dinesh Singh (1,00,000 Equity Shares), Parul Kaushikbhai Patel (1,00,000 Equity Shares), G D Chitale Ventures LLP (1,00,000 Equity Shares), Ganesh Nilkanthrao Deshmukh (1,00,000 Equity Shares), Sachin Marutrao Pawar (1,00,000 Equity Shares), Sunil Govind Kulkarni (1,00,000 Equity Shares), Shanmukhappa H Chitrakoti (1,00,000 Equity Shares), Ravindra Bharamu Bedage (50,000 Equity Shares) and Shivani Rohan Bhate (50,000 Equity Shares).

8. The Acquirers along with its Directors severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.

A copy of the Post-Offer Advertisement would also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in and on the website of the Manager to the Offer at www.vivro.net

Issued by Manager to the Offer on Behalf of the Acquirers

VIVRO

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Address: Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre,

Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. Tel No.: 079-4040 4242 | SEBI Reg. No.: MB/INM000010122 Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net

Contact Person: Shivam Patel | CIN: U67120GJ1996PTC029182 For and on the behalf of the Acquirers:

Pankaj Ramesh Samani Acquirer-1

Company Secretary and Compliance Officer Place: Gurugram

financialexp.epapr.in

Place: Sangli, Maharashta

Date: May 30, 2024

New Delhi

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट – IV ए) (नियम 8(6))

अईअर्जुप्पर्त होन प्राइनेंस तिनिटेड (पूर्वस इंडिया इन्फोलाइन शाउसिय फाइनेंस तिनिटेड के नाम से झाल) (आईआईएफएल एचएफएल) कार्योरेट कार्यालय : प्लॉटनंबर 🙉 उद्योग कि फेंग-६, गुरुप्राम-122015 (हरियाणा) और के पास कंपक अध्यत सम्पर्देश की विक्री विक्रीय ऋतित्वों का प्रतिभृतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभृतिक्वित प्रवर्तन ऑपेनियम, 2002(इस्ट आगे अधिनियम कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएक्यल- एचएकएल के प्राधिकृत अधिकारी (एजों) ने निम्नलिक्षित अप आतो / पीस्पेक्टर नंबरों में अधिनियम की धारा 18(2) वं लहत निम्न वर्गित राम्पलि /सम्पलियों का करता उनकी आईआईएमएल- एनएफएस की बकाया शांति की वसूकी के लिए "जैसी हैं उसा है एवं जैसी है औ है आधार" पर बेचने के अधिकार सहित पान कर सिया था। अधोहरताक्षरी द्वारा यह विक्री यंबसाइट www.liflanchome.com. पर उपलब्ध कराए गए ई-मीसामी प्लेटकार्म के साध्यम से की जाएगी।

कार्यवार(ओ)/शस- वर्णाकारोको / सार्यका(ओ)	मंग सूचना तिथि और राजि	अवत चन	बर्तिः/प्रतिकृत आस्ति का वर्णन	मीतिक कस	ने की तिथि	शुरवित मूल्य		
कर्जवास(बी) / कार्टर(बी) १. विकास स्थानी २. सॉलिका गुला ३. विकंक त्यानी ४. मंसस टाइब्रॉस श्रविया ट्रस (ग्री) विनिधेट (ऑस्पेक्ट नंबर १७५३३४)	20-सिलम्बर-2019	संपति का मह हि	सा। जो युनिट/पसेट संबर टीक्टरका	13. 401	2024	F.70,40,000 /-		
	रु.४1,72,481 / - (क्षमचे इकतारिका लाख अहत्तर	विकित्य नवर टीट	त. 20वीं मंतिसा पर विश्वत है, प्राणेस्ट ट पार्क गांव क्योरपुर और सेवका	विनाक 23 मई वृत्त व	(स. सत्तर ठवल पाठीम हजार चन्द्र)			
	हजार चार सी इक्यासी साथ)	संवटस-६२, गुड़गा (संवपन १११२ वर	म. हरियाणा, १२२००१ में स्थित है. र्ग भीट है)	रु ६३,६० (स्थापे जिस्सव र	.682 / - सम्ब्राह्म स्थात हामार	घरोहर तति जमा (ईएनवी) स.र.०४,०००/ ~		
ट्सं (गा) निर्मिटेड (प्रीस्पेस्ट नंबर ७७५८३१)	बोली पृद्धि शक्ति ए. 50,000 /- (वयास इन्जार रूपमें मात्र)	SALD-889.11.1. 9200	andress	आठ सी व	वासी न्यन्ध्र)	(४. प्राप्त जाव्य वार संज्ञार संज)		
	रामाति से निर्देशन सी विकि	1	ইংলটা নাটান বিশ্বি			লী বিভি/প্ৰদয়		

भुगतान की विधि : ईएमडी भुगतान कंवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप https://www.iiflonehome.com पर ज़ाएं और कंवल सम्पत्ति / प्रतिश् मास्ति के लिए उपलब्ध लिंक के मध्यम से मुखान करें। नीट : हर सम्पत्ति के लिए एक कलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस -सम्पति/प्रतिभूत आरित जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के भाष्यम से खरीदना चाहते शेष भुगतान के लिए, सफल बोली के बाद, आपको भुगतान आस्टीजीएस/एनईएफटी के मध्यम से करना होगा। खाता विवत्य निम्नानुसार है - क) खाते का नाम : आईआईएफएल होग फाइनैंस लिमिटेत ख) बैंक का नाम - स्टैंवर्ड थोटेर्व बैंक लिमिटेत. य) खाता नंबर : 9902879 प्रॉस्पेक्ट नंबर द्वारा अनुसरित. प्र) आईएकएसमीकीक — एससीबीएल0038001 म) बैंक पता : रहेंबर्ज वार्टर बैंक, 90 एम जी, रोज, फोर्ट, मुम्बई-400001. आईआईएफएल (एवएफएल)द्वारा सबसे अवसे तरह से बात संपत्ति पर संभावित भार -"प्रोजेक्ट को विकसिश करने वाले बिरुदर ने सीधी (आईबी) 300 (पीबी) 2020 में माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ में समक्ष कॉपॉरेट दिवालियागन माधान प्रक्रिया से गुजरा और अब प्रोजेक्ट को एक सकत अमाधान आवेदक वानी KGKDHOOT ने जनने ज़र्पीन से लिया है।

* बिरुडर रिकॉर्ड में सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ बकाया भुगतान ही सकता है जो बिरुडर रिकॉर्ड में नाम के इस्तातरण के समय सफल बोलीदाता द्वारा वेय होगा। सुरक्षित संपतियों से संबंधित अन्य मुख्यमे हो सकते हैं। इसलिए, प्रतिमानियों को सलाह दी पाती है कि ये मान लेने से पहले आवश्यक लींच और उचित परिश्रम करें। रूप

HFL इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

नोटः – बोलीदाला नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले आवश्यक परिश्रम करेगा।

09:30 मजे से 18:00 मजे एक कील करें अधवा ई-मेल : care@iiflonchome.com, को मेल लिखें।

्रई-मीलामी में मान लेने के लिए इवपुरू कोलीवालाओं को अगना विवस्त सेवा प्रवास https://www.iiflonchome.com के पाल पर्यास अधिक में पंजीवृत करवाना होगा लख लंगाइन खात लॉगहर आई की और पासकर्त सुवित करना होगा। हत्वहुवा बोलीटालाओं को अधना निविद्या कार्म ईएमडी के बुगतान विकरण, केवाईसी लख पैंगकार्त की बारी के साथ उपनि वर्गित माख्य कार्यालयः में पामा / प्रेषितः करना होगा ।

बोलीदाता अपनी ऑपन कालमा बोलीद्वि स्वीत में वर्षित स्वीत स्वीत के पुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप होने से 5 मिनट पहले कोई बिंड आने पर समाप्ति का समय स्वत 5 मिनट सफल बोलीपात को बोलीपाति में 26 प्रतिकत पाति (हेएमडी प्रमध्यानन के बाद) एजी द्वारा बोलीमूल्य खीलार करने के 24 घाटे के मीतर और बोली पति की सेन 76 प्रतिकत साति प्रतिम्

क्षेत्रदार द्वारा विज्ञी की पृष्टि जी तिथि से 15 दिन के मीतर जमा करनी होगी क्षमी जमा जीव मनतान निर्धारित विधि में करने होने। खतीयार को सम्पत्ति के लाव संबंधित उपकर लागुस्ताम्य दव्दी, फीस तथा अन्य करमूनी वकाया अथ्या अन्य कारणा तैसे कि म्युनिसंग्रतकर, विजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुवर्ग लागते. प्रभार शभी करों लखा जयकरों सहित बहल करने होंगे।

बोलीवाताओं कोई--नेजानी विकी प्रक्रियाओं में माण जेने के लिए अपनी बोली जामा करने से पहले नीलामी विकी के विष्कृत नियमों एवं जलीं तथा आवेदन प्रपन्न के लिए वेबसाइ https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने ही सलाई दी जाती है।

विस्तृत विवरण, नवाबता प्रक्रिया तथा ई-नीलानी के संवर में ऑनलाइन प्रक्रिक्षण में लिए संभावित बोलीदाता सेवापदाता भी ई-नेत आईती : care/citflonehome.com, सर्वेट ईस्पलाइनन्ब / 1800 2672 469年17 刊刊前 市社1 किकी सम्पत्ति विवरण, गम्पति निरीक्षण और जॉनस्वक्षण किव क्षयादि के संबंध मेंपूरालाक के लिए आईआईएफएक एसएफएस टील विशेषर 1600 2672 698 पर सीमवार से मुक्तसर के की

एकदहारा उपलेखन कर्जवारों की मुखना दी जाती है कि मीतिक करना लेले समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुए र दिन के मीतर हटा ले. अन्यथा आईआईएफएल एकएफएल पॉरिस्थितियाँ के अधीन सम्पत्ति की किसी श्रांति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ्एक्ट्रारा कर्जवारी को अगे सूचना ही जाती है कि उपरोक्त वस्तुद प्रत्य कर ने में कुछ की रिधारि में उनको विधि राज्यत्वाम से बेचा जाएगा।

). सकुल बोलीयाता / गीलामी खरीदार द्वारा किसी भी करण में निवारित समय के मीतर भुगलान में चुक की किसी ने किसी रदय ≋र यी जाएगी तथा पहले जमा की जा सुकी सीता (ईपमर सहिता जल कर तो जाएगी और सम्पतित की बिक्री दोबास की जाएगी। : एको का पिना कोई कारण बढाए निक्दिः/नीलामी रक्षनित्त/निस्स्त करने या नियम एवं शती नै संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी मी विवाद की रिवर्ति में आईआईएकएल-एकएकएल के एओ का निर्मय अंतिम माना आएग

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उप नियम (1) के तहत 15 दिनों की बिक्री सूचना कर्णकर को अधिस्थित किया जाता है कि उपरि धर्मित साथि अवतन आज और अनुसंगी तार्धी के बाब निविद्य / मेलामी की विधि से पहले कर दें जिल्ली असरकार रहने पर सम्पत्ति बंधी / मेला की जाएगी और बकाबा राकि, पाँदे कोई, ब्याज और लायत संदित पसूख की जाएगी।

स्थान : गुडगांव, विधि : 31 मई 2024

वास्तु हाउसिंग फाइनेस कापरिशन लिमिटेड, पंजीकृत पताः यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र. शाखा का पताः ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 272, ब्लॉक-जी, सेक्टर 63 नोएडा, पिनकोड-201309

हस्ता./-प्रामिकृत अधिकारी, आईआईएकएल होन काहर्नेस लिमिटेक

निजी संधि के तहत अचल संपत्ति की बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए लिए गए कब्जे के अनुसरण में निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांग नोटिस की तिथि जारी करते हुए उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने तथा अपने ऋण दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करने का आह्वान किया है। चूंकि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर ऋण राशि चुंकाने में विफल रहे, इसलिए वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित अचल संपत्ति का भौतिक कब्रूना ले लिया है और नियमों के नियम 9 के साथ नियम 8(5) में उल्लिखित तरीकों को अपनाकर उक्त सुरक्षित संपत्ति को बेचने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

वास्त हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ही उक्त सुरक्षित को बेचने के लिए नीलामी आयोजित की थी, लेकिन वे असफल रहे। इस प्रकार, प्राधिकृत अधिकारी को अब खरीदार (खरीदारों) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो नीचे दी गई तालिका में आरक्षित मूल्य के रूप में उल्लिखित मूल्य के लिए सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए, आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है, कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कल बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर चकाई नहीं जाती है, तो वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बंधक नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति **14—जून—24** को ''जैसा है जहाँ है', ''जैसा ह' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि की वसूली के लिए

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या और शाखा	उधारकता / उधारकता)कानूना उत्तराधिकारी)/कानूनी प्रति. निधि/गारंटर(ऑ) के नाम	माग नाटिस के अनुसार राशि और मांग नोटिस की तिथि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	अचल संपत्ति का विवरण	
1	HL000000 0084636	वेद ब्यास (उधारकर्ता), रेखा कुमारी (सह–उधारकर्ता)	16-मई-23 को रु.2578809 / - 	रु. 2650000 / — (छब्बीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 265000/— (दो लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र)	तीसरी मंजिल पर निर्मित भाग संख्या बी—7, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 804 वर्ग फीट, प्लॉट संख्या 27,28 और 29, मुस्तैद नंबर 33, किला संख्या 20 और 21/1 पर निर्मित, नांगलोई जाट गांव की राजस्व संपदा में स्थित, जो अब धर्म कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, नांगलोई, दिल्ली 110041	

उपर्युक्त उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सरक्षित परिसंपत्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए नियम और शर्ते निम्नानुसार हैं:

1. बिक्री सख्ती से एसआरएफएईएसआई अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। निजी संधि के तहत बिक्री 'जहां है, जैसा है' और 'जो है, जैसा है' के आधार पर होगी।

2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए वीएचएफसीएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मुल्य की बयाना राशि जमा करानी होगी और शेष राशि उसके बाद 15 दिनों के भीतर चुकानी होगी। 3. क्रेता आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10प्रतिशत जमाँ करेगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार किए जाने वाले बयाना राशि जमा के विरुद्ध

समायोजित किया जाएगा। 4. उपरोक्त खंड (2) के तहत अपेक्षित राशि का भूगतान न करने पर, आवेदन के साथ भूगतान की गई राशि के 10प्रतिशत सहित पहले से भूगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

5. वीएचएफसीएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में, आवेदन के साथ भगतान की गई 10: राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी

6. संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह वीएचएफसीएल को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारीध्सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। 8. वीएचएफसीएल बिना कोई कारण बताएँ खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. एक से अधिक प्रस्तावों के मामले में, वीएचएफसीएल उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, यदि उच्चतम बोलीदाता शेष राशि जमा करने में विफल रहता हैय तो वीएचएफसीएल दूसरे उच्चतम प्रस्ताव का अनुरोध और स्वीकार कर सकता है।

10. इच्छक खरीदार प्राधिकृत अधिकारी श्री महेश पंत, मोबाइल नंबर: 9810540470 से सोमवार से शनिवार तक कार्य समय (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं।

11. खरीदार को लागू टीडीएस, स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ट्रांसफर चार्ज आदि का भुगतान करना होगा और साथ ही किसी को देय सभी वैधानिकधौर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मुल्यांकन शुल्क, फीस आदि का भूगतान करना होगा। 12. प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13—जून—24 को शाम 05.00 बजे तक होगी। शाखा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

दिनांकः 26.02.2024	वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV ए) (नियम 8(6))	
arbarburga dia unda faliade todo efferi cadance mafini uncha faliade di uni di mel jurbarburga munucia antico so	of an entire or cette their diameters of the second

इरियाण) और शखा कार्यात्म ऑफिस नंबर 1. पडारी मंजिल, सहातकारी मेट्टो टॉवर, फॉट नंबर सी –1. सेंबरर – 4. वैकासी, गानियाबाद, सारा प्रदेश – 201010/ 30/30ई खारी पार्टव पत्नीर, सुख विकास कर्म संस्थान होत. जनकार बोर्क्स के बचल में, बोसी तरण ना दिल्ली के पास कंक अवान सम्पत्ति की बिली करितायों का प्रतिमित्तिकरण और प्रमुशियांच तथा प्रतिमाशिक प्रकार अधिनिक

कर्जवार(ओ) / सह— कर्जवार(ओ) / गारंटर	मंग सूचना तिथि और चरि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति वर वर्गन	मीतिक कन्ये की तिथि	सुरक्षेत्र सूच्य ४. 25.00,000 / —	
(a))	20-maint-2023 30t	संपत्ति का वह पूर हिस्सा जिसमें आवासीय फ्लैंट नंबर एफ-2	18-10-2024	(सपय बीस शास्त्र मी सजार पात्र)	
1. श्री मधंक जिंदल, 2. मेक्स जिंदल	रु.20,26,543 / - (रुपये मील लाख फबीस हजार	पहली मंजिल, किना छटा के अधिकार के, (सामने का हिस्सा/आरएअएस युनिट), (पुराना फ्लैट नंबर कार), नख	दिनांक 02-मई-2024 एक कुल बकाया दाति		
फर्नीचर ३. श्रीमधी मोनिका जिटल	प्रथ सी तैवालीस मात्र)	नगरपालिका गंबर १७१, मोस्ट्रस्य पूर्वी इस्माइल खान, मारूप प्रम नगर, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201001 में निषय है। माप क्षेत्र (वर्ग कीट में)क शांबति का प्रकार निर्मित क्षेत्र, करलेट क्षेत्र	ण.21.91.357./ (बेयल इंब्बंगेस संस्थ	वर्तेहर रही। जम्म ((ज़मजी) स. 2,00,000/~ (रुप्तरे दो शाख मी सी मांज)	
(मीरपेक्ट में अर2441. अर6620)	बोली चुटि चरि ए. 25,000 / (प=र्विस हजार रूपये मात्र)	सपति क्षेत्र 644.00. 515:00	इक्यानवे हजार तीन सी संतरका रूपये)	रिवन की पाल का सा सा सानी	
1, श्रीमती शीला देवी	04-जनवरी-2024 एव	संपत्ति का वह समस्य भाग जिसमें फ्लेट रहेंग्या डी-1, टीसरी	13-46-2024	₹ 10.86,000/-	
2. श्री प्रताप (प्रीस्पेक्ट ग. साईएल10124048)	६.11.98.747 /- (क. प्यारह लाख अद्वानचे हजल सहा भी सैतालीस नाव)	मंजिल, पीछे वाई ओर बिना छता / देशेश अधिकार से मूणि बोजमल 360 वर्ग मीट, कारपेट शेजकत 350 वर्ग पीट, विकय	विनाक 103-मई-2024 तक सूत्र संस्थाया शक्ति	(४५६ दस लाख मधानी हजार मा: धरोडर चर्कि जना ((एसके)	
	मोली पुद्धि सोवा के 25,000/- (प्रकार कवार कवार मात)	बोन्य क्षेत्रफल 402 दर्ग प्रीट, संपति संख्या वी.1400/2, वी. 1400/2-की, (पुराना नंबर वी1400), खरारा संख्या १९४० और 2. मांच देवली, तहसील साबेल, एमधी रोड, दक्षिण दिल्ली, 110080 पर निर्मित है।	रु. 11,82,566 /- श्यारह लख्य बासठ हजार बास हवे क्रियासड रूपवे भाउं।	क 1.06.500/- (कर्म्य एक सम्बद्ध आठ हमाने पांच सी खड़)	
 भीनती शिवानी श्री चंदर मान घंदर मान 	10-जनवरी-2024	संपत्ति का वह समस्त भाग किलमें प्रथम तल है. विना	18-HE-2024	के 38,00,000/ (अवस्था समय गर्ने इसस्य रूपर्	
	र: 21,05,920 / — (इक्फोस लाख पीच डम्बार नी सी बीस रुपये मात्र)	कर नाम संख्या ११. खसरा संख्या २१/२४ में से महियाला नाम	दिनांक 09-मई-2024 एक सुत्र बसावा शरी	HIN)	
(प्रॅक्सिक्ट नंबर आईएल 10184735)	ater 644 disp	की राजस्य संपदा में लिखन, आबादी क्षेत्र जिले कीलोमी मन्द्रे मार्क के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक की में, गली नंबर t	कं. 21,97,003 / — (कं. इक्वीस लाख संचानवे	भगेतर चरित्र प्रमा ((१९मवी) वः १,७५१००/	
***	बोली दृद्धि चरि रु 25,000 / - (पाणीरा हजार छपये गाज)	उत्तम नगर, नहीं दिल्ली, 110050, भारत क्षेत्र माप (वर्ग घीट में) संपत्ति का प्रकार, विक्रम घीगम क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र, 450,00, 363,00	हजार तीन मान)	(एक सारा सकती । हजार स्थाए मात्र)	
1. भी सूरव जैन	27-विसंबर-2021 और	संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें फ्लैट नंबर एस-६ दूसरी चेजिल.	17-46-2024	₹ 9,90,000 / ~	
2. श्रीमती रहिम जैन (प्रीस्पेक्ट नं. आईएल10137208)	र.17.13.512 / - (र. समह जाक तेरह हमार पाँच सी बन्दर मार्च)	बिना छन के अधिकार के 363 वर्ग पीट, एसएफ, प्लॉट नंबर पी–24 ए प्राजीमार शार्कन एक्सटेंबन-+ गाजिकाबाद, जनर प्रदेश, 209010, मानट शामिल है	विश्वंक 03-गई-2024 तक कुल बकावा रहीं	(क. भी आज बाह-बजार बाह)	
464,000,000	बोली इदि शाणि क 20,000/- इंक बील इस्तर खल)	(निर्मित क्षेत्र 400 गां फीट)	क 22,23,617 / - (क्षमधे बाईश लोख तेईश हाबार प्रहासी संबद्ध मात्र)	धरीवर शक्ति जन्म (ईएमवी) के ब्रह्म (इ.स.) (इ. क्रिन्समी इतार सम्ब	
1. जी गनबीर सिंह	१०-जनवरी-२०२४ और	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें फ्लेट संख्या एकएक-३, तथम	16-45-2024	क 13,53,000/- (क्यों) तेव्ह आध्र सिंदान इञ्चा	
 श्री मनीव कुमार, श्रीमठी उमा, 4. 	र-18,94,994 /- अंबारक लाख चौरानमें ब्रजार मी	तल, किंगा प्रता अधिकार के (एमआईजी, सामने की ऑर. वाई ऑर), प्लीट संख्या-की 57, और बी 58, एसएलएक केंद्र सिहार	दिनक 03-मई-2024 तक	(रूपम तटह आव (तटम हजार	
मनवीर सिंह (प्रीस्पेनट	सी चौरानमें रूपए मान)	बाम साबुरलाबाद, घरमना और तहसील लोगी, गानिवाबाद राह्र	सुल बकावा राशि । च.18.16.2007	धर्वेष्टर शेरि जन्म (ईर्ड्सवी)	
नं. आईएल10131663)	बोली कृदि चानि रु.25,000/ (पाणीस झंबार रुपए माझ)	201010 माम क्षेत्र (वर्श परेट में) संवति का प्रकार विक्री पोग्य क्षेत्र माम क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र100000 45000।	(र. जनीस लाख सीलह हजार दो सी मात्र)	४ 1.35,300/- (काफ एक लाख प्रतिक हजार त	

पुगवान की जिले । ईएनडी मुगतान केनल ऑनलाइन विकि से करने होने । पुगतान करने के लिए उस https://www.iiflonchemu.com पर जर और केनल सम्पत्ति,/अस्तिपुर आदित के लिए उसलाव सिक हे माध्यम से बनागन करें। नोट : हर सम्पत्ति के लिए एक अल्प बुगलन लिंक है। आप सुनिष्टिया करें कि आप लंग सम्पति/प्रतिक्षा आतित का लिंक ल्पायोग कर रहे हैं. जिसके आप सार्वजनिक नीलानें के माराम से करियम बारते हैं। बीम कुम्मान के लिए, सफल बीटी में का अध्यक्त बुग्तान आरटीलीएल/एम्पुएकटी के माराम से करना प्रीमा। काल विकटन निम्नानुसार है : क) बार्ट का नाम : अईआईएक्स्स् टेन फाइनेंग निर्मिटेट (४) वेक का पन : स्टेंडर्ड वार्टर वेक निर्मिटेट, १) काल पंक : secasos प्रांचाक पंक द्वारा अनुसारित, ६) आईएकएससीकीट -- एससीवीएनव्हास्ट्रा (३) के बात : स्टेंडर्ड वार् क्षेत्र, ६० प्रमानी राज पर्वर्ट जनवी-400001

03 जुलाई 2024 2024 राय. 5 मजे सम

01 जुलाई 2024 1100 मधे-1400 मधे

स्थान : नाई दिल्ली , शिथि : 31 मई 2024

नियम और सर्वे :--

ई-नीलामी में माग लेने के लिए इच्छूक बोलीपालाओं को अपना विकास सेवा प्रवास https://www.iiflonehome.com वो पास मयोगा अधिम में पंजीकृत करवाना होगा लवा लॉगहन काता लीमहुन आई ही और पासवर्ष सुजित करना होगा। इन्हरूक बोलीदाताओं को अपना निविद्य फर्म्स ईएमजी के मुगतान विवरण, कंशाईसी तथा पैनकार्ज की प्रति के साथ उपनि वर्षित शास्त्र कार्यासय में जमा / प्रेषित केरमा होगा।

बोलीदारा अपनी अधिक कालमा पोलीवृद्धि रहित में प्रार्थित रहित के मुगलों में बढ़ा सकते हैं। मैलामी समापा होने से 5 मिनट पहले कोई बिद आने पर समाधित का समय स्वतः 5 मिन आणे बढ आएगा।

राकल बोलीवाता को बोलीशारी की 25 प्रतिकार राशि (ईएसडी सम्बद्धांजन के बाद) एको हुएस बोलीकुल क्वीकर करने के 24 घंटे के मीलर और बोली राशि की सम 75 प्रतिकार राशि प्रतिकृत लंगदार द्वारा बिक्री की मुन्दि की तिथि से 16 दिन के मीतर जंगा करनी होगी।सभी जंगा और मुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे। करीदार को सम्पन्ति के प्राय संबंधित वंपकर, लागुस्टम्प हयूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अन्य बकाया जैसे कि स्टुनिनिपलकर, विजली प्रमार, मुप्ति तथा अन्य सनी अनुवर्ग

लागते, प्रसार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे। बोलीदाराओं कोई-नीलामी विक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए जरानी बोली जन्म करने से पहले नीलामी विक्री के विस्तृत निवमी एवं वार्ती तथा आवेदन प्रथव के लिए वेस्तवहरू

किलान किराय सहायता प्रक्रिया तथा ई-मीजापी के संबंध में ऑनलाइन प्रविक्षण के लिए संपाधित बोजीयाना संवाधारता की ई-मेल आईडी : carequitiflomehome.com, स्पार्ट हेल्पलाइनसंब Z 1800 2672 499मार रामार्थ करें। किसी सम्पत्ति विकरण, राम्पति निरीक्षण और जीनसङ्ग किस इत्यादि के संबंध मंगुप्रसाध के लिए। आईआईएकएस एक्स्पर्सन टील कीनबर 1900 2672 498 पर सामधार से सुप्रसाध के बीच

https://www.iiflonchome.com কথা https://www.iifl.com/home-boans/properties-for-auction ইয়ান কাঁ বালাই বাঁ কাই হাঁ

09:30 बजे से 18:00 बजे तक कील कर अथवा ई-मेल : care@iiflonehome.com, की मेल लिखें।

एतद्द्वारा उपरोक्त कज़ेदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कबना लेते समय प्रतिभूत आरित में रखी परेलू वस्तुए ह दिन के मीतर हटा ज़े. अन्यवा आईआईएफराल एकएफराल परिरेथतियाँ कं अधीन सन्पतित की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होती। रलदृहारा कर्जवारों को आगे सूबना दी जाती है कि उपरांक्त बालुएं प्राप्त कर में में जूक की स्थिति में उनको विधि सम्मतद्रम से बेबा जाएगा।

u, सफल बोलीवास / नीमामी खरीवार द्वारा किसी मी अल्प में निर्धारित समय के नीतर मुगलन में खुत की विवति में बिक्री रदन कर दी जाएगी तथा महले जामा की जा चुकी राशि (ईएमधी चहित) जन्म कर ली जाएगी और सम्बन्धि की बिजी प्रोबाध की जाएगी।

पुजी का विभा कोई कारण बताए निविदा / गीलामी कविता / निरमा करने या नियम एवं हार्ती में संशोधन करने का अधिकार सुरक्ति है। निविदा / गीलामी के सबय में किसी मी विवाद की निधति में आईआईएफएस-एचएफएस के एओ वर्ग निर्णय अतिम माना जाएगर सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

करोदार को अधिजुषित किया जाता है कि उपरि धर्मित राशि अधानन व्याज और अनुमनी कर्षों के छाथ निविद्य / मेहानी की लिखि से चहले कर दें, कियमें अस्मान रहने पर सम्पत्ति बेची / नीहान की जाएगी और बकरवा राशि यदि कोई जाज और लागत सहित वसल की जाएगी।

हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी, अर्खुआईएकएस होन काहनैस जिन्हिटेड

06 पुलाई 2024 1100 समे-1300 समे

सुप्रीम कर्मशियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: Y-4-A-C, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली- 110028, दूरभाष: No. 9350150766 ई—मेल आईडी : supremecommercial@gmail.com, CIN : L51909DL1983PLC016724

क्र०	विवरण			समेकित				एकीकृत				
सं०		समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त वार्षिक		समाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक			
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	
		अंकेक्षित	अन—अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	
1	संचालन से कुल आय (नेट)	87.74	113.99	66.75	356.50	313.45	151.46	178.06	217.54	641.23	818.74	
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	3.92	2.93	2.03	9.57	6.34	33.51	2.02	(5.21)	0.36	22.51	
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	3.92	2.93	2.03	9.57	6.34	33.51	2.02	(5.21)	0.36	22.51	
4	कर के बादे पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	3.16	2.19	1.68	7.39	4.83	34.44	1.28	(8.85)	(0.85)	11.13	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	3.16	2.19	1.68	7.39	4.83	34.44	1.28	(8.85)	(0.85)	11.13	
6	इक्वीटी शेयर कैपीटल	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	
7	रिजर्व (रिवैल्यूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाया गया)	-	-	-	185.24	177.85	-	-	-	540.12	540.97	
8	प्रति शेयर आय (रू॰ 10/- के प्रत्येक) संचालन जारी एवं बंद करने के लिए											
	मूलः	0.59	0.41	0.31	1.38	0.90	6.43	0.24	(1.65)	(0.16)	2.08	

स्थान : दिल्ली

तिथि : 30/05/2024

तरलः

- 1. उपरोक्त समेकित एवं एकीकृत वित्तीय परिणामों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की 30 मई, 2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये।
- सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत उपरोक्त उद्वरित वित्तीय परिणामों को विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जों में दाखिल किया गया। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट -www.msei.in एवं कम्पनी की वेबसाइट www.supremecommercial.co.in पर उपलब्ध है।

0.31

1.38

0.90

6.43

0.24

0.41

3. आकड़ें जहाँ पर आवश्यक हो, पुर्नगठित एवं पुर्नव्यवस्थित किये गये हैं।

कृते सुप्रीम कर्मशियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

(1.65)

सीता राम गुप्ता DIN: 00053970

(0.16)

2.08

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 22, 2024, the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange"), and the Securities and the Exchange Board of India ("SEBI").

ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED

Our Company was originally incorporated as Gupta Carpets Udyog Limited under the Companies Act, 1956, with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, National Capital and Territory of Delhi and Haryana on January 21, 1984. Subsequently the name of our Company was changed from "Gupta Carpets Udyog Limited" to "GCUL Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana on July 11, 1995. Thereafter the name of our Company was subsequently changed from "GCUL Limited" to "Ashnoor Textile Mills Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, National Capital and Territory of Delhi and Harvana on April 29, 1999. For detailed information of change of Registered Office please refer to chapter "General Information" on page number 40 of the Letter of Offer.

> Registered Office: Behrampur, Khandsa Village, Gurugram, Haryana-122001, India Telephone: 0124-4809755 | E-mail id: accounts@ashnoortex.com | Website: www.ashnoortex.com Contact Person: Ms. Yashima Saluja, Company Secretary & Compliance Officer Corporate Identity Number: L17226HR1984PLC033384

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SUNEEL GUPTA, MS. SANGEETA GUPTA, MR. ABHINAV GUPTA AND MS. NOOR GUPTA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED ONLY

ISSUE OF UP TO 31,86,462 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/ PER (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 10)- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"). AGGREGATING TO ₹ 637.29 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 4 (FOUR) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON FRIDAY, APRIL 26, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 111 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Ashnoor Textile Mills Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Tuesday, May 07, 2024 and closed on Thursday, May 16, 2024 and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Monday, May 13, 2024, Out of the total 1,537 Applications for 1,40,28,881 Rights Equity Shares, 448 Applications for 2,33,699 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid applications received were 1,089 Application for 1,35,45,182 Rights Equity Shares, which was 425.09% of the issue size. In accordance with Letter of Offer and the Basis of allotment finalized on May 27, 2024, the Registrar to the Issue and BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on May 27, 2024, allotted 31,86,462 Rights Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for allotment. 1.The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	No. of Rights Equity Shares Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares Allotted against Additional Rights Equity Shares Applied for (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (C=A+B)
Eligible Equity Shareholders	1,019	1,31,82,892	20,90,916	10,79,320	31,70,236
Renouncees	70	3,62,290	16,226	NIL	16,226
Total	1,089	1,35,45,182	21,07,142	10,79,320	31,86,462

Information regarding total Applications received:

Category	Applications Received		Rights Equity	Shares Applied f	Rights Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%
Eligible Equity Shareholders	1,467	95.45	1,34,16,591	26,83,31,820	97.37	31,70,236	6,34,04,720	99.49
Renouncees*	70	4.55	3,62,290	72,45,800	2.63	16,226	3,24,520	0.51
Total	1,537	100	1,37,78,881	27,55,77,620	100	31,86,462	6,37,29,240	100

*the investors (identified on the basis on PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the Issue are considered as Renouncees.

Intimation for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on May 30, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Application were given on May 27, 2024. The listing application was filed with BSE on May 27, 2024 and subsequently the listing approval was received on May 28, 2024 from BSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat account of allottees was completed on May 30, 2024. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE with effect from June 03, 2024. The Rights Equity Shares will traded under same ISIN as Equity Shares (i.e. INE372101018). In accordance with SEBI Circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of ISIN pertaining to Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on May 29, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of the BSE Limited." on page 109 of the LOF.

,	_	-	
K	(
1	7	×	

COMPANY

LINKIntime

ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED Registered Office: Behramgur, Khandsa Village, Gurugram, Harvana-122001, India

Telephone: 0124-4809755 E-mail id: accounts@ashnoortex.com Website: www.ashnoortex.com

Date: May 30, 2024

Place: Gurugram

Contact Person: Ms. Yashima Saluja, Corporate Identity Number: L17226HR1984PLC033384

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai City, Maharashtra 400083, India.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Telephone: +91 8108114949; E-mail: ashnoortextile.rights2023@linkintime.co.in

Investor grievance: ashnoortextile.rights2023@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in

Contact Person: Ms. Shanti Gopalakrishnan

SEBI Registration No: INRO00004058

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post- Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the

Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole) first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with

a photocopy of the acknowledgement slip. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE. THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Ashnoor Textile Mills Limited On behalf of the Board of Directors

Ms. Yashima Saluja Company Secretary and Compliance Officer

